

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 19-07-2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम हेतु 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

- 1- पप्पू प्रजापति पुत्र मखन प्रजापति सा. भगवानपुर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- राज कुमार पुत्र अशर्फी सा. मझिगवा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री किशोरीलाल चौधरी थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- का.शिबबन लाल थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

सराहनीय कार्य दिनांक 19.07.2021 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

बेसहारा का सहारा बनी मोहाना पुलिस, भूखी औरत को भोजन कराकर किया उसकी जठराग्नि को शांत।

थाना परिसर में आयी एक बूढ़ी औरत जिसे उसके ही बेटे ने बेघर कर दिया था और बेचारी भूख और प्यास से तड़प रही थी, ऐसे में मोहाना पुलिस उसकी सहारा बनी और महिला का 0 ज्योति पांडेय व गीतांजलि सिंह द्वारा उसे भोजन कराया गया जिसकी उपस्थित लोगो द्वारा भूरी- भूरी प्रशंसा की गई। बाद कराने भोजन उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि उसका पुत्र ही उसको बहुत मारा पीटा है और बिना भोजन दिए घर से निकाल दिया है। बाद पूछताछ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 19-07-2021

.शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरतगतढ सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व श्री दिनेश चन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना ढेबरूआ पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही –

आज दिनांक 19.07.2021 को थाना ढेबरूआ टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1.मो0रजा पुत्र एनानुल्लाह सा0 केवटली थाना-ढेबरूआ जनपद सि0नगर
 - 2.अब्दुल रहमान पुत्र मो0 वकील सा0 केवटली थाना-ढेबरूआ जनपद सि0नगर
- गिरफ्तार करने वाली टीम
- 1-उ0नि श्री उपेन्द्र सिंह थाना-ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
 - 2-हे0का0 दीनानाथ यादव थाना-ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक- 19.07.2021

एण्टी रोमियो स्कवाड द्वारा की कार्यवाही में 02 शोहदे धरे गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्कवाड पुलिस टीम द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी ।

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19.07.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर, मोहाना व कपिलवस्तु थानाक्षेत्र में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 02 शोदे पकडे गये । पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के

आधाशन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया ।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01-महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।

02-आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

03-आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर

04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट, थाना जोगिया उदयपुर दिनाँक: 19.07.2021

आज दिनाँक 19.07.2021 को 15.00 श्री अरूण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी बांसी महोदय द्वारा थाना जोगिया में आदेश कक्ष आहूत किया गया और विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की गई तथा गुण दोष के आधार पर विवेचनाओं के निस्तारण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और निरोधात्मक कार्यवाही सहित अन्य निर्देश दिए गए। इसके साथ ही महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया और महिला आरक्षियों को यथावश्यक बातें बतायी गयीं। इसके अतिरिक्त प्रचलित अभियान के तहत थाना जोगिया प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरुआ, उप निरीक्षक वीरेंद्र राय, उपनिरीक्षक अजीत यादव, उपनिरीक्षक पवन कुमार, उप निरीक्षक भीम सिंह तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे ।